

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-अप्रैल, 2012 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2012 (फाल्गुन 11, 1933)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, पूर्व सदस्य विधान सभा,
- (2) श्री मगनलाल गोइल, पूर्व सदस्य विधान सभा, तथा
- (3) श्रीमती विद्यावती मेहता, पूर्व सदस्य विधान सभा.

## 2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 2007) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय विश्वा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, वेअर हाऊसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब – पत्रक वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

## 4. नियम 138 (1) अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ओछापुर थानान्तर्गत सन्तराम की खिरकारी पर दो लोगों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के धामन्याजोगी से व्हाया खिलचीपुर मार्ग की जर्जर स्थित होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य, इंदौर शहर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री संजय पाठक, नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य, कटनी एवं नरसिंहपुर जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य पूर्ण न होने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी -

“सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है.”

## 6. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य, सागर जिले के-
    - (क) ग्राम बसाहरी के हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,
    - (ख) ग्राम आगासौध में हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,
    - (ग) ग्राम बम्होरी बेला में अवैध खनन करने वालों पर कार्यवाही कराये जाने,
    - (घ) मंडी बमोरा की कन्या माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा
    - (ड.) बीना नगर के प्रजापति एवं सेन समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने,
  - (2) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर के-
    - (क) यूनानी अनुसंधान यूनिट को शासकीय यूनानी तिबिवया कालेज में स्थानांतरित कराये जाने,
    - (ख) वन ट्री हिल्स बैरागढ से अतिक्रमण हटाये जाने,
    - (ग) जामा मस्जिद के आस पास की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,
    - (घ) मध्यप्रदेश के सभी शहर काजियों को काजी एक्ट के अंतर्गत विशेष कार्य पालन अधिकारियों के अधिकार दिलाये जाने,
    - (ड.) मध्यप्रदेश के हज यात्रियों को हज के दौरान निः शुल्क आवास सुविधा दिलाये जाने,
    - (च) मध्यप्रदेश की मस्जिदों में कार्यरत इमामों को वेतन भुगतान कराये जाने, तथा
    - (छ) मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के वारिसों को शासन की सुविधाओं का लाभ दिलाये जाने,
  - (3) श्री रामकिशोर (नानो) कांवरे, सदस्य, बालाघाट जिले के-
    - (क) परसवाड़ा आदिवासी बाहुल क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने,
    - (ख) ग्राम पंचायत लामटा में महाविद्यालय खोले जाने,
    - (ग) ग्राम पारादेह, सोनखार, देवसर्रा ग्रामों में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने, तथा
    - (घ) ग्राम पिपरझिरी से ढीनी मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
  - (4) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले के-
    - (क) ग्राम गठेवरा शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने, तथा
    - (ख) ग्राम गठेवरा में नल जल योजना प्रारंभ कराये जाने,
  - (5) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के-
    - (क) ग्राम हाथरस से ग्राम सिरसोना तक सड़क निर्माण कराये जाने,
    - (ख) ग्राम बेरूआ के कृषकों के लिये हस्ती डेम से नहर का निर्माण कराये जाने, तथा
    - (ग) ग्वालियर जिले के आरोन भितरवार रोड से लखेरी माता तक रोड निर्माण कराये जाने,
  - (6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के-
    - (क) ग्राम पंचायत मकरोनिया में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था कराये जाने, तथा
    - (ख) ग्राम पंचायत पामाखेड़ी में हायर सेकेन्ड्री स्कूल स्वीकृत कराये जाने,
  - (7) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य, सतना जिले के-
    - (क) ग्राम महिदलकला के शा. हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
    - (ख) ग्राम पंडिया में पशु औषधालय खोले जाने, तथा,
    - (ग) ग्राम बकिया तिबरियान हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

## 7. वर्ष 2012-2013 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा .... (क्रमशः )